



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2018 (AGRAHAYANA 1, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2018

संख्या 12/22/2018-6टी(1).— हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 65, 96 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

“(1) राज्य में प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है, गैर-परिवहन वाहन के सम्बन्ध में अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अध्याय II के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।”।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(1) यदि नियम 4 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन सही पाया जाता है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तथा नियम 15 में विनिर्दिष्ट चालक अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा अनुज्ञापन प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस निमित्त राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है, द्वारा आयोजित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अनुसार परीक्षा के प्रयोजन के लिए, आवेदक उस ऐसे समय तथा स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तथा अपने साथ उस श्रेणी का एक सेवा योग्य वाहन लाएगा, जो परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवेदन से सम्बन्धित है।”

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2018

No. 12/22/2018-6T(I).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 28, 65, 96 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by Additional Chief Secretary to Government Haryana, Transport Department, Chandigarh with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Each Sub-Divisional Officer (Civil) in the State and such other person who is authorized by the Government, by notification in the Official Gazette in this behalf shall be the licensing authority to issue licences under Chapter II within the area of his territorial jurisdiction in respect of a non-transport vehicle.”.

3. In the said rules, in rule 5, the sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) If the application for grant of a licence is found in order under rule 4, the test for a learner's licence specified in rule 11 and for a driving licence specified in rule 15 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be conducted by the licensing authority or such other person who is authorized by the Government, by notification in the Official Gazette in this behalf.

(2) For the purpose of test in terms of sub-rule (1), the applicant shall produce himself at such time and place as may be specified by the licensing authority or such other person who is authorized by the Government and bring with him a serviceable vehicle of the class to which the application belongs for testing purposes.”.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.